



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण 1939 (श10)
(सं0 पटना 1191) पटना, मंगलवार, 19 दिसम्बर 2017

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

15 दिसम्बर 2017

ग्रा0वि0- 1 स्था0 (रा0प0) 01/2012-343223—ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना में न्यायिक मामलों की अधिकता एवं जटिलता को दृष्टिपथ रखते हुए विधि विशेषज्ञ सेवानिवृत्त पदाधिकारी/ अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार किया जाना आवश्यक है ताकि माननीय न्यायालय में जटिल एवं महत्वपूर्ण मामलों का पक्ष रखते समय कोई तकनीकी त्रुटि न रह जाय । फलतः विधि विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या ए0/यो0 निगम अधि024-2011-8440 जे0, पटना दिनांक 22.11.11 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में अधिवक्ता/ सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की नियुक्ति अथवा पैनल गठन हेतु नामों के चयन के निमित्त ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना में विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:-

- | | | |
|-------|--|-----------|
| (i) | विभागीय मंत्री | - अध्यक्ष |
| (ii) | श्री अरविन्द कुमार चौधरी, विभागीय सचिव | - सदस्य |
| (iii) | श्री राधा किशोर झा, विशेष सचिव | - सदस्य |
| (iv) | श्री संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव | - संयोजक |

2. श्री संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा अधिवक्ता की नियुक्ति अथवा पैनल गठन हेतु प्रस्ताव तैयार कर विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा ।

3. विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा अधिवक्ता/ सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की नियुक्ति या पैनल (विवाचन से संबंधित पैनल सहित) गठन हेतु नामों का चयन कर विधि विभाग को भेजा जायेगा । तत्पश्चात् विधि विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरांत अधिवक्ता की नियुक्ति या पैनल के गठन संबंधी आदेश निर्गत किया जायेगा ।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेश परिमल,
सरकार के उप-सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)1191-571+25-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>